



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 1983/चैत्र 4, 1905
No. 142] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 1983/CHAITRA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना :

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1983

क्रां० आ० 218(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधि-
नियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित उनकी
धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का
संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (पटकोणीय आकार के बीस
पैसे के सिक्के और आठ स्कैलप के दस पैसे के सिक्के
का तिनमें मैग्नीशियम 3.5 से 4 प्रतिशत और एलुमिनियम अवशिष्ट
अवशिष्ट है, मानक वजन और उपचार) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीस पैसे और दस पैसे के सिक्कों का मानक वजन और उपचार :—
सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के
उपधाराओं के अधीन निम्नलिखित मूल्य वर्ग के सिक्कों का मानक वजन और
ऐसे सिक्कों के निर्माण में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो नीचे की सारणी
में विनिर्दिष्ट हैं :—

सारणी

| मूल्य वर्ग | मानक वजन | अनुज्ञात उपचार | |
|------------|------------|---|----------------------|
| | | सरचना में | मानक वजन में |
| बीस पैसे | 2.20 ग्राम | मैग्नीशियम 3.5% से 4% एलुमिनियम] अवशिष्ट | 1/40 वां घन या ऋण |
| दस पैसे | 1.75 ग्राम | " " | " " |

[क्रा० सं० 1/20(1) 81—स्वायत्त]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th March, 1983

S.O. 218 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-
section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act,
1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the
following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be
called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Coins
of Twenty Paise of hexagonal shape and Ten Paise of eight
scallops both containing Magnesium 3.5 to 4 per cent and
Aluminium remainder) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard Weight and Remedy allowed on the 20 paise and 10 paise coins :—The standard weight of the coins of the following denominations, coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the Table below:—

TABLE

| Denominations | Standard weight | Remedy allowed | |
|---------------|-----------------|--|----------------------|
| | | In composition | In standard weight |
| Twenty paise | 2.20 grammes | Magnesium 3.5% to 4% Aluminium remainder | 1/40th plus or minus |
| Ten paise | 1.75 grammes | Magnesium 3.5% to 4% Aluminium remainder | 1/40th plus or minus |

[No. F. 1/20(I)/81-Coin]

न० फ० २१९(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, १९०६ (१९०६ का ३) की धारा ६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि—

(क) निम्नलिखित मूल्य वर्ग के सिक्के भी केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने के लिए टंकाल में बनाए जाएंगे अर्थात् :—

- (i) बीस पैसे;
- (ii) दस पैसे;

(ख) उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइनों और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

| मूल्य वर्ग | आकार और बाहरी व्यास | धातु संरचना |
|------------|--|--|
| बीस पैसे | षट्कोणीय कोनो के आर-पार २६ मिलीमीटर और फ्लैट के आर-पार २४.५ मिलीमीटर | ऐलुमिनियम-मैग्नीशियम मैग्नीशियम ३.५% से ४% ऐलुमिनियम अवशिष्ट |
| दस पैसे | स्कैलपेट (८ स्कैलप) स्कैलप के आर-पार २३ मिलीमीटर | ऐलुमिनियम-मैग्नीशियम मैग्नीशियम ३.५% से ४% ऐलुमिनियम अवशिष्ट |

डिजाइन :

बीस पैसे

मुख्य भाग :

सिक्कों के इस भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह गुम्बज होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" सार वाक्य अंकित होगा और उसकी बायीं परिधि में "भारत" शब्द और दायीं परिधि में "INDIA" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग :

सिक्के के इस भाग पर अग्रभूमि में सिक्के का निर्माण वर्ष और सिक्के का अंकित मूल्य "२०" अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा। "पैसे" शब्द अंकित मूल्य के ऊपर और "PAISE" शब्द अंकित मूल्य के नीचे अंकित होगा तथा परिधि के साथ कुछ कलाकृति होगी।

दस पैसे

मुख्य भाग :

सिक्कों के इस भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह गुम्बज होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" सार वाक्य अंकित होगा और उसकी बायीं परिधि में "भारत" शब्द और दायीं परिधि में "INDIA" शब्द अंकित

होगा तथा परिधि पर स्कैलपों के साथ "मणिकाएं" होंगी।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर अग्रभूमि में सिक्के का निर्माण वर्ष और सिक्के का अंकित मूल्य "१०" अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा। "पैसे" शब्द अंकित मूल्य के ऊपर और "PAISE" शब्द अंकित मूल्य के नीचे अंकित होगा और अंकित मूल्य के दायें और बायें कुछ कलाकृति होंगी तथा परिधि पर स्कैलपों के साथ "मणिकाएं" होंगी।

[सं० एफ० १/२०/(II)/८१-नवायन]

पी०एल० सकरवाल, उप सचिव

S.O. 219(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government, namely :—

- (i) Twenty paise,
- (ii) Ten paise;

(b) the coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely :—

| Denomination | Shape and outside diameter | Metal composition |
|--------------|---|---|
| Twenty paise | Hexagonal. 26 millimetre across corners and 24.5 millimetre across flats. | Aluminium-magnesium Magnesium 3.5% to 4% Aluminium remainder. |
| Ten paise | Scalloped (8 scallops) 23 millimetre across scallops. | Aluminium-magnesium Magnesium 3.5% to 4% Aluminium remainder. |

Design

Twenty paise

Obverse:

This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" and on the right periphery with the word "INDIA".

Reverse:

This face of the coin shall bear the year of coinage and the denominational value "20" in international numerals in the foreground, flanked with the word "पैसे" above the denominational value and the word "PAISE" below the denominational value with some art work along the periphery.

Ten paise

Obverse:

This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" and on the right periphery with the word "INDIA" and with "BEADS" along the scallops on the periphery.

Reverse:

This face of the coin shall bear the year of coinage and the denominational value "10" in international numerals in the foreground, flanked with the word "पैसे" above the denominational value and the word "PAISE" below the denominational value with some artwork on the right and left sides of the denominational value and "BEADS" along the scallops on the periphery.

[No. F. 1/20 (II)/81-Coin]

P.L. SAKARWAL, Deputy Secy.